

Date: - 21st June, 2022

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
Regd. Office: Floor - 25,	Listing Deptt., Exchange Plaza,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Dalal Street, Mumbai-400 001.	Mumbai - 400 051
BSE Scrip Code: 543300	NSE Scrip: SONACOMS

SUBJECT: - SUBMISSION OF NEWSPAPER CLIPPINGS

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of the advertisement, published on 21st June, 2022 in Business Standard (English and Hindi) newspapers informing about the completion of dispatch of Notice of the 26th Annual General Meeting along with Annual Report for the Financial Year 2021-22.

This is for your information and record.

Thanking you,

For SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Gurgaon

B

Ajay Pratap Singh

Vice President (Legal), Company Secretary and Compliance Officer

End: As above

nagpur

.nagpur

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

(CIN: L27300HR1995PLC083037) Registered Office: Sona Enclave, Village Begumpur Khatola Sector 35, Gurugram-122004, Haryana, Tel. No.:- 0124 – 476 8200

Email: investor@sonacomstar.com Website: www.sonacomstar.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th July, 2022 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing mode("VC")/Other Audio Visual Means("OAVM") facility without the physical presence of the members at the Common Venue, to transact the business items as set out in the Notice of the AGM

The Company has sent the Notice of 26th AGM only through electronic mode on **Monday**, The Company has sent the Notice of 26th AGM only through electronic mode on **Monday**, **20th June**, **2022** to those Members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on **Friday**, **10th June**, **2022** in accordance with the General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circular dated 5th May, 2020, 13th April, 2020 and 8th April, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 read with circular dated 12th May, 2021 and other applicable circulars if any issued by the Securities and Exchange Board of India other applicable circulars, if any, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively called " Circulars"). The requirement of sending the physical copies of Annual Report has been dispensed with, reference to above mentioned Circulars issued by SEBI. The Notice of 26th AGM along with the Annual Report of the Company is available on the Company's website at www.sonacomstar.com and on the website of the Stock Exchange i.e, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, on the website of NSDL at evoting.nsdl.com. Member may access the Annual Report of the Company through https://sonacomstar.com/investor/annual-reports-and-returns.

Members can attend and participate in AGM through VC/OAVM facility only. The instruction for joining the AGM and manner of participation in remote e-voting or casting vote for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses through the e-voting system during 26th AGM, is provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, the Register of Contracts or arrangements in which the directors are interested under Section 189 of the Companies Act, 2013, Annual Report along with the AGM Notice and all other documents as referred in the Notice and explanatory statement, including certificate from the Secretarial Auditors of the Company under Regulation 13 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 will be available electronically for inspection, without any fee by the members, from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM, i.e. Thursday, 14th July, 2022 and also during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email at investor@sonacomstar.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the SEBI and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

The Members, whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., Thursday, 7th July, 2022 are entitled to vote on the Resolutions set forth in this Notice. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice of AGM for information purpose only. Once the vote on a resolution is casted by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Further the Members who have casted their vote through remote e-voting shall not be allowed to vote again during the AGM.

The remote e-voting period begins on **Monday, 11th July,2022 at 9:00 a.m**. and ends on **Wednesday, 13th July, 2022 at 5:00 p.m**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., **Thursday, 7th July, 2022** may cast their vote electronically. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being

As per the abovementioned Circular issued by SEBI, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to the Members. Members who have not registered updated email addresses are requested to follow the process as mentioned below:

Manner of registering / updating email addresses:

- A) Manner of registering / updating email addresses for members holding shares in physical mode: Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by providing the signed Form ISR-1 to Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"). Members can also write to the Company/RTA at investor@sonacomstar.com /einward.ris@kfintech.com respectively along with the copy of signed Form ISR-1 mentioning all the details including Folio Number, name and address of the Member, Permanent Account Number ("PAN"), Email address,
- B) Manner of registering / updating email addresses for members holding shares in dematerialised mode: Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email addresses by contacting their respective Depository Participants.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ankit Singhi (FCS No.- 11685; CP No. 16274) and failing him, Mr. Nitesh Latwal (ACS No.-32109; CP No. 16276) Partners of M/s. PI & Associates, Practising Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting through electronic voting system at the AGM in a

The Record date for the purpose of determining entitlement of the shareholders for the final dividend for Financial Year 2021-2022 is **Thursday, 30th June, 2022**. The payment of the final dividend shall be made within 30 days from the date of its declaration subject to the approval of the shareholders in the ensuring AGM. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) by providing the signed Form ISR-1 which is available on the website of the Company at https://sonacomstar.com/investor-relations. The manner in which the mbers who wish to register Electronic Bank Mandate for receiving the dividends directly n their bank account(s) on payout date are detailed in the Notice of the AGM.

For any query members may contact the Company at +91 124 4768200 / E-Mail ID: investor@sonacomstar.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Limited (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Contact details: Toll Free No.: 1800-3094-001; or send an email request at the email id: einward.ris@kfintech.com.

> For and on behalf the Board of Directors Sona BLW Precision Forgings Limited

Ajay Pratap Singh Vice President (Legal), Company Secretary and Compliance Officer

Date: 20/06/2022 Place: Gurugram, Harvana

ADITYA BIRLA

Place: Mumbai

Date: 20th June 2022

GRASIM INDUSTRIES LIMITED CIN: L17124MP1947PLC000410

Registered Office: P.O. Birlagram, Nagda - 456 331, Dist. Ujjain, Madhya Pradesh, India Tel.: +91 7366-246766 Corporate Office: Aditya Birla Centre, "A" Wing, 2nd Floor, S.K. Ahire Marg, Worli, Mumbai - 400 030, Maharashtra, India

Tel. No.: +91 22 6652 5000 / 2499 5000; Fax No.: +91 22 6652 5114 / 2499 5114 E-mail: grasim.secretarial@adityabirla.com; Website: www.grasim.com

TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the IEPF Rules'), as amended from time to time, Grasim Industries Limited ('the Company') is required to transfer those equity shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years to the demat account of the Investor Education and Protection Fund Authority' ('IEPF').

The Company has sent a communication to each shareholder whose dividend has remained unclaimed from FYs 2014-15 to 2020-21, at the address registered with the Company, providing details of the unclaimed dividend and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by 30th September 2022, failing the receipt of a valid claim by the aforementioned date the shares will be transferred to IEPF. The Company has uploaded a statement valid claim by the ardiententioned date the shares will be trainsteried to terr. The Company has upbaced a statement containing details of name(s) of the shareholder(s), their Folio No./DP ID-Client ID, details of unclaimed dividend and equity shares due for transfer to IEPF on its website. Shareholders are requested to refer to the Company's web-link https://www.grasim.com/investors/unpaid-and-unclaimed-dividend-iepf to verify their details.

The Company will not transfer the shares to IEPF where there is a specific order of Hon'ble Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are hypothecated or pledged under the provisions of the Depositories Act, 1996.

In case shares along with dividend are transferred to IEPF -

- For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued transferred subsequently to the demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled
- For shares held in electronic form: The shares will be directly transferred to the demat account of the IEPF with the help of Depository Participant(s) without any further notice

Shareholders may note that both, the unclaimed dividend and the equity shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from IEPF by submitting an online application in the prescribed form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules

Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company, as required by the said Rules, for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s)

In case shareholders have any queries, they may contact Mr. Ganesh Patro, Senior Manager, Kfin Technologies Limited, the Company's Registrar and Transfer Agent at Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana, India or by sending e-mail at einward.ris@kfintech.com.

For **GRASIM INDUSTRIES LIMITED**



INVITATION OF OFFER FOR SHORT TERM LOAN

CI intends to raise Rs. 50,000 cror through Short Term Loan from Scheduled Banks for 3 month maturity. For more detail, visit 'https://eprocure.gov.in/ eprocure/app' and 'http://fci.gov.in/ tender.php'. The last date of submission of offer is 04.07.2022 till 11:00 AM. General Manager (Funds)

Telephone No.- 011-43527407

Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadu Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shailesh Dobhal RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201 For Subscription and Circulation

enquiries please contact: Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations usiness Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575

No Air Surcharge



Nagpur Smart And Sustainable City Development Corporation Limited



CIN: U74999MH2016SGC283173 REGD OFF: NEW ADMINISTRATIVE BUILDING, NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION, PALM ROAD, CIVIL LINES, NAGPUR-440001,

Maharashtra, India. Landline: +91-712-2567037, Email: ceonsscdcl@gmail.com, Website: www.nsscdcl.org EXPRESSION OF INTEREST

Reference No.	Name of the Project	Cost of the EoI Document (Rs) Inclusive of GST
02/MOB/NSSCDCL/ 2022	Detailed Survey work using High Resolutions Satellite Imagery or LiDAR data and RTK DGPS to prepare GIS based Sewer Map of Nagpur along with integration of existing Storm water drain and Water supply network of Nagpur.	11800

The EoI document for the above project is available on the website https://mahatenders.gov.in. Right to reject any or all EoI without assigning any thereof is kept reserved by the competent authority.

The last date of EoI Submission is 29th June 2022 till 4 pm **Chief Executive Officer** Place: Nagpur NSSCDCL



Nagpur Smart And Sustainable City Development Corporation Limited

CIN: U74999MH2016SGC283173

REGD OFF: NEW ADMINISTRATIVE BUILDING, NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION, PALM ROAD, CIVIL LINES, NAGPUR-440001, Maharashtra, India. Landline: +91-712-2567037, Email: ceonsscdcl@gmail.com, Website: www.nsscdcl.org

EXPRESSION OF INTEREST

Reference No.	Name of the Project	Cost of the EoI Document (Rs) Inclusive of GST
03/MOB/NSSCDCL/2022	Providing and Installing and Commissioning including	11800
	Operation and Maintenance of Automated Multilevel Car and	
	Bike Parking System at four locations in Nagpur, Maharashtra	

The Eol document for the above project is available on the website https://mahatenders.gov.in. Right to reject any or all Eol without assigning any thereof is kept reserved by the competent authority.

The last date of EoI Submission is 29th June 2022 till 4 pm Place: Nagpur

Chief Executive Officer NSSCDCL





National Stock Exchange of India Limited

CIN: U67120MH1992PLC069769

Regd. Office: Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel: +91 22 26598100 E-mail: secretarialdept@nse.co.in | Website: www.nseindia.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND INFORMATION

Annual General Meeting:

Notice is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of National Stock Exchange of India Limited ('the Company') will be held on Tuesday, July 12, 2022, at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In view of the continuing COVID 19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs vide General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022, respectively and SEBI vide Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, respectively issued clarification/relaxation on holding the Annual General Meeting through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars') and other incidental matters in connection with the same. In compliance with the said Circulars, the Company has sent the Notice of the 30th AGM along with a weblink to access the Integrated Annual Report 2021-22 on June 20, 2022, through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant. As a green initiative, Company encourages members to receive / access e-Copy of Annual Report. However, hard copy of Annual Report will be sent to those shareholders who request for the same.

The Integrated Annual Report 2021-22 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 30th AGM is available on the website of the Company at www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Remote e-Voting and e-Voting at the AGM:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, each as amended from time to time, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before / at the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The information and instructions for remote e-Voting and Voting at the AGM has been provided in the Notice of AGM.

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	Friday, July 08, 2022 (9.00 a.m IST)
Conclusion of remote e-Voting	Monday, July 11, 2022 (5.00 p.m IST)

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

- b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, July 05, 2022 ('cut-off date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right at the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the AGM.
- c. Member(s) may participate in the AGM even after exercising his/her vote through remote e-Voting but shall not be allowed to change the vote subsequently or cast the
- d. A non-individual shareholder who acquires shares of the

Company and becomes a Member of the Company after the despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote.

e. Individual shareholder who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date may follow the login process mentioned in the Notice of the AGM.

Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for e-voting facility.

- f. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.
- g. Member(s) are requested to intimate all changes pertaining to their Bank details, email address, power of attorney, change of name, change of address, contact details, etc. to their Depository Participants at the earliest.

Mr. Makarand Joshi, and failing him Mrs. Kumudini Bhalerao, partners of M/s. Makarand M Joshi & Co, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before/during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013 or call on the toll-free number(s): 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Asst Vice President - NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Manager - NSDL or Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager -NSDL at evoting@nsdl.co.in

Helpdesk for Individual members for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Securities with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 224 430
Securities with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542 / 43

Dividend:

Place: Mumbai

Date: June 21, 2022

Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on May 06, 2022 has recommended a final dividend of ₹ 42 per share. The record date for the purpose of final dividend for Financial Year 2022 will be July 05, 2022. The final dividend once approved by the shareholders at the ensuing AGM will be paid on or before thirtieth day from the date of declaration through Electronic Clearing Service. Shareholders may please note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. Members are requested to update their Electronic Bank Mandate through their Depository Participant/s in order to receive dividends in a timely manner.

For National Stock Exchange of India Limited

Sd/-**Rohit Gupte Company Secretary**

Sailesh Daga

Company Secretary FCS 4164

अनु.

1.00.000/

2,00,000/-

मात्र) 18.05.2022 के अनसार

उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. इकाई: पिपराईच (गोरखपुर) २७३१५२ Ref. No. PIP/2022-23/निवदा/203 ई - निविदा सूचना इस मिल के सत्र 2022-23 हेतु निम्न के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: निविदा की अन्तिम तिथि 🛮 खोलने की तिथि विवरण धरोहर धनराशि

12,07,2022

12.07.2022

टेण्डर फार्म फीस रु. 1180/- (GST सहित) तथा धरोहर धनराशि, मिल के इंडियन बैंव शाखा-पिपराईच के खाता संख्या 50537210018. IFSC Code-IDIB000C503 मे जमा करके टेप्टर फार्म अपलोट किया जा सकता है। किसी भी एक ई-निविदा अथवा समस्त ई-निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य विवरण वेबसाइट etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। संपर्क अधिकारी- मुख्य

11.07.2022

11.07.2022

रसायनज्ञ मो. 6389025600 क्रय प्रभारी मो. 6389025587 प्रधान प्रबन्धक

IFL HOUSING FINANCE

मांग सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमांण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत जबकि आईएफएल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएलएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी ने अधिनियम के तहत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पहले ही विस्तृत मांग सूचनाएं जारी की थीं जिसमें कर्जदार(ऑ) / सह—कर्जदार(ओ) / जमानती(ओं) (सभी एकल या संयुक्त रूप से "बाध्यताधारी" कहा गया है) / नीचे सूचीबद्ध विधिक उत्तराधिकारी(ओं) / विधिक प्रतिनिधिओं) से संबंधित मांग सचना /ओं में उल्लिखित राशियों नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित सचना /ओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकत करने के लिए कहा। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ पावती देय पंजीकृत डाक द्वारा दी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त बाध्यताधारी(ओं) / विधिक उत्तराधिकारी(ओं) / विधिक प्रतिनिधि(ओं) यदि चाहें तो संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय अवधि में किसी भी कार्यदिवस कं अधोहस्ताक्षरी से पाप्त की जा सकती है।

शुगर बैग हैंडलिंग

सेंल आफ प्रेस मेड

उपर्युक्त के संबंध में एक बार पुनः एतद्वारा उक्त बाध्यताधारी(ओं) / विधिक उत्तराधिकारी(ओं) / विधिक प्रतिनिधि(ओं) को भुगतान और / या वसूली की तिथि तक नीचे वर्णित संबंधित तारीखों से नीचे दिए विवरण अनुसार भविष्य की ब्याज सहित संबंधित नामों के लिए नीचे इंगित राशियों को संबंधित सूचना/ओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर, उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण करार और अन्य दस्तावेजों / लिखतों यदि कोई हों. के साथ पठित आईएफएलएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वार क्रमशः निम्नलिखित प्रत्याभूत परिसंपत्ति(याँ) आईएफएलएचएफएल को बंधक रखी गई हैं।

ऋण	बाध्यताधारी(ओं) / विधिक	কুল ৰকাযা খািং (হু.)	मांग सूचना की	
खाता	उत्तराधिकारी(ओं) / विधिक	अधोल्लिखत	तारीख और एनपीए	
संख्या	प्रतिनिधि(ओं) के नाम	নাথীজ কাাঁ*	की तारीख	
LNBLR 00521- 220005 259	श्री नरेन्द्र कुमार, श्रीमती शारदा और श्री राजेश जोशी	दिनांक 31.05.2022 को राशि रु. 2,65,269/- (रुपये दो लाख पैंसठ हजार दो सौ उनहत्तर मात्र)	की तारीख	पट्टा नं. 04, बुक नं. 30, मिसल नं. 03/2007–08, ग्राम पंचायत आनंदपुर, कालू, जनपद पंचायत जैतरन, जिला पाली, मरवार जंक्शन

. *उपर्यक्त संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित दर से भविष्य की ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक वहन किए जाने वाले प्रासांगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ। यदि उक्त बाध्यताधारी उपरोक्तानुसार आईएफएलएचएफएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो आईएफएलएचएफएल उक्त अधिनयम की धारा 13(4) और लाग नियमों के तहत लागतों और परिणामों के लिए पूर्ण रूप से उक्त बाध्यताधारी(ओं) / विधिक उत्तराधिकारी(ओं) / विधिक प्रतिनिधि(ओं) के हर्ज-खर्चे पर उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) / अचल संपत्ति(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

उक्त बाध्यताधारी(ऑ) / विधिक उत्तराधिकारी(ऑ) / विधिक प्रतिनिधि(ऑ) बिना आईएफएलएचएफएल की लिखित अनमति के बिक्री, पटटे या अन्य किसी तरीके से उपरोक्त प्रत्याभृत परिसंपत्ति(ऑ)/अचल संपत्ति(ऑ) को हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या इसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में सहयोग करता है तो वह अधिनियम के तहत यथा कैद और/या दंड का भागी होगा। हिते आईएफएल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

> प्राधिकृत अधिकारी संपर्क पताः डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर,

प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

स्थानः राजस्थान

दिनांकः 21.06.2022



SONA COMSTAR सोना बीएल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड

(CIN: L27300HR1995PLC083037) पंजीकृत कार्यालयः सोना एन्क्लेव, ग्राम बेगमपुर खटोला सेक्टर 35 गुरुग्राम-122004, हरियाणा, **दूरभाष नंबर :-** 0124 - 476 8200 र्डमेल : investor@sonacomstar.com वेबसाइट: www.sonacomstar.com

शेयरधारकों को 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), बृहस्पतिवार, 14 जुलाई, 2022 को मध्या. 12.00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग मोड ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, उभय स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जानी निर्धारित है।

कम्पनी, कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कूलर नंबर 02 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 के साथ पठित जनरल सर्कुलर दिनांकित 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 08 अप्रैल, 2020 और अन्य लागू सर्कुलर्स तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी, सीएमडी2 / सीआईआर / पीं / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 12 मई 2021 तथा अन्य लागू सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से "सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुसार 26वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोंड द्वारा सोमवार, 20 जून, 2022 को कम्पनी के उन सभी सदस्यों को भेज चुकी है जिनका ई-मेल पता **शुक्रवार, 10 जून, 2022** को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीबद्ध है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता, सेबी द्वारा जारी उपरिवर्णित सर्कुलर्स के संदर्भ में, समाप्त कर दी गई है। 26वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sonacomstar.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है सदस्यगण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट https://sonacomstar.com/investor/ annual-reports-and returns के माध्यम से देख सकते हैं।

सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने के लिए अनदेश तथा डीमैटीरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग अथवा वोट डालने की विधि और उन सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, के लिए 26वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उन संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिनमें निदेशकों के हित हैं, वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना और सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी अन्य दस्तावेज, जिनमें सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाम और स्वीट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 13 के तहत कम्पनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र शामिल हैं, इस ो तिथि से एजीएम की तिथि अर्थात **बृहस्पतिवार 14 जुलाई, 2022** तक तथा एउ दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा बिना कोई शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यगण investor@sonacomstar.com को ई-मेल भेज सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 (यथ संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और सेबी तथा एमसीए सर्कुलर्स के अनुसरण में, कम्पनी सदस्यों को एजीएमे की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ अधिकृत एजेन्सी के तौर पर, एक अनुबंध निष्पादित किया है। सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम की तिथि को ई-वोटिंग के उपयोग द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यगण, जिनके नाम रेकार्ड तिथि **(कट-ऑफ तिथि)** अर्थात **बहस्पतिवार ०७ जलाई. २०२२** को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज मौजूद होंगे, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उसको एजीएम की यह सूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण, जो अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुकें होंगे, उनको बैठक में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **सोमवार, 11 जुलाई, 2022 को पूर्वा. 09.00 बजे** आरंभ होगी तथा **बुधवार, 13** जुलाई, 2022 को अप. 05.00 बजे समाप्त होगी। तदुरातत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वॉटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यगण, जिनके नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार 07 जुलाई, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज मौजूद होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकेंगे। सदस्यों का वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार 07 जुलाई, 2022 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

सेबी द्वारा जारी उपरिवर्णित सर्कुलर के अनुसार, सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिव प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है।

जिन सदस्यों ने ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतित नहीं करवाया है, उनसे निम्नवर्णित प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध

ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतित करवाने की विधि:

दिनांकः 20/06/2022

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतित करवाने की विधि : भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत/अद्यतित नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण कम्पनी के रजिस्ट्रर एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर–1 भेज कर करवा लें। सदस्यगण कम्पनी / आरटीए को भी क्रमानुसार investor@sonacomstar.com/ einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, सदस्य का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या ("पैन"), ई-मेल पता, मोबाइल नंबर इत्यादि के उल्लेख के साथ हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर-1 संलग्न किया जाना चाहिए।

ख) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए ई—मेल पता पंजीकृत/अद्यतित करवाने की विधि : अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स से सम्पर्क कर पंजीकृत / अद्यतित करवा लें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री अंकित सिंघी (एसीएस नंबर – 11685 ; सीपी नंबर 16274) और उनकी अनुपस्थिति में श्री नीतेश लातवाल (एसीएस नंबर – 32109 ; सीपी नंबर 16276) पार्टनर्स मैसर्स पीआई ऐंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरीज को एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए अंतिम लाभांश हेतु शेयरधारकों के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेकार्ड तिथि बृहस्पतिवार 30 जून, 2022 है। अंतिम लाभाश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाएगा, जो आगामी एजीम में शेयरधारकों की मंजूरी की शर्त के अधीन होगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरीज (जहां उनके शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं) के पास तथा कम्पनी के आरटीए के पास (जहां उनके शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर-1 भेजकर अपना केवाईसी अद्यतित करवा लें। उक्त फार्म कम्पनी की वेबसाइट https://sonacomstar.com/investor-relations पर उपलब्ध है। जो सदस्य लागांश के भूगतान की तिथि को भगतान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक आदेश पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं, उनके लिए उसकी विधि का विस्तृत विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

किसी संदेह की स्थित में, सदस्यगण कम्पनी से +91 124 4768200/ ई—मेल आईडी investor@sonacomstar.com पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट्स, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः "कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से मशहूर) कार्यालय पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट नंबर 31–32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500 032, सम्पर्क विवरण : टोल फ्री नंबर : 1800–3094–001 से सम्पर्क करें अथवा ई-मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेजें।

pते एवं हिते निदेशक मंडल सोना बी एल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड अजय प्रताप सिंह

उपाध्यक्ष (विधिक), कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी M.No. F5253

सिक्यरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट. 2002 (कानन) की धारा 13(2) के अंतर्गत सचना गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण कर्जदाता (ओं) का नाम एन.पी.ए.की बकाया राशि तारीख (सी) (रू.) (डी) (बी) (Ų) 18.05.2022 संपत्ति नं.E-184. तल मंजिल. (पीछे की कर्ज खाता क्र.HHLGRG00219052 रू.15.59.262.94 /-तरफ) गली नं.13, राजा पुरी, उत्तम नगर, नई (रूपए पंद्रह लाख उनसठ हजार 1. असलम खान दो सौ बासठ और चौरानवे पैसे 2. ममता उर्फ ममता सनन दिल्ली -110059

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडी के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, . सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता "।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित हैं। थान: दिल्ली/जौनपुर(उत्तर प्रदेश) प्राधिकृत अधिकारी

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण एन.पी.ए.की बकाया राशि

क .	(y)	(बी)	तारीख (सी)	(रू.) (डी)	ı
1	कर्ज खाता क्र.HLLABRL00380642	मकान नं.9/A का भाग, मॉडल टाउन,	04.05.2022	₹.1,33,30,329.52 /-	ı
	1. वरुण मित्रा (सह -उधारकर्ता, बेटा	ब्रह्मपुरा, परगना, तहसील और जिला बरेली,		(रूपए एक करोड़ तैतीस लाख	ı
	एवं स्व.अनिल मित्रा का कानूनी वारिस)	बरेली-243005,उत्तर प्रदेश		तीस हजार तीन सौ उनतीस और	
	सैलून एचएम का प्रॉपराइटर			बावन पैसे मात्र) 04.05.2022	
	2. रंजना मित्रा (सह -उधारकर्ता, पत्नी			के अनुसार	
	एवं स्व.अनिल मित्रा की कानूनी वारिस)				
	3. अंकिता मित्रा				

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्धुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडी के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारोख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पुर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निवदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता "

सरफेर्सी अधिनयमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियो में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित हैं। स्थान : बरेली प्राधिकृत अधिकारी

कृते इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

	सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनाशियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की	बकाया राशि	
क्र.	(y)	(बी)	तारीख (सी)	(रू.) (डी)	
1	कर्ज खाता क्र.HHLNOD00392917	अपार्टमेंट नं.A-1206, बारहवीं मंजिल,	14.06.2022	₹.20,30,777.81 /-	
	1. रवि कुमार गोलछा	टावर - ए, आरओएफ आलयस,		(रूपए बीस लाख तीस हजार	
	2. योगीता पिंचा	सेक्टर-102, गुरुग्राम -122505, हरियाणा,		सात सौ सतहत्तर और इक्यासी	
		टू व्हीलर ओपन पार्किंग साइट के साथ		पैसे मात्र) 14.06.2022 के	
				अनुसार	

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनसार) के रूप में वर्गीकत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने, उनके पुण दायित्वोका निर्वहन करे. ऐसा न करने पुर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिगरीत करने के लिए कंपनी एाउ होगी। कपया ध्यान दें कि सरफेसी कानन की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनसार.'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए. सार्वजनिक निवदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता " ।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है।

प्राधिकत अधिकारी कते इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्म लिप्पिटेड

मांग सूचना की



कर्जदारों 🖊

फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड सीआईएनः U65990MH2010PTC240703,

रोजाइरः। obs996/mn26/10/102, रोबसाइटः homefirstindia.com फोन नं: 180030008425 ई—मेल आईडीः loanfirst@homefirstindia.com

कष्णा सूचना

संदर्भः प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे दी संबंधित तारीखों को जारी मांग सूचना के अनुसरण में अधोल्लिखित आप/कर्जदारों को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कहा। आप/ सभी कर्जदार, हालांकि, निर्धारित समय अवधि में उक्त बकाया देयों को भुगतान करने में असफल रहे. इसलिए. होम फर्स्टे फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा(4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार रखते हुए और प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है:

क्र. सं.		कर्जदारों / सह–कर्जदारों / जमानतियों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना की तारीख को कुल बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तारीख
1.	भिवाड़ी	गोस्वामी परेशपुरी	फ्लैट नं. 1212, बिल्डिंग—टी8, टीएचडी रॉयल कोर्ट गाँव—पिपली रोड, निकट ईपीआईपी जोन, नीमराना — 301703	10-04-2022	16,40,447	15-06-2022
2.	गाजियाबाद	कमला देवी, विजय कुमार, सुधाकर सिंह, अनिल कुमार	मकान—55—ए, प्लॉट नं. 55ए, खसरा नं. 704, कृष्ण वाटिका, गाँव अछेजा, परगना और तहसील दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201450	10-04-2022	13,43,458	15-06-2022
3.	गाजियाबाद	विद्यावती देवी, हरि शंकर चौरसिया	एफएफ–2, प्रथम तल प्लॉट नं. 78सी, खसरा नं.— 1488, बालाजी एन्कलेव प्लॉट नं. 78सी, खसरा नं. 1468, बालाजी एन्कलेव, एईसपुर, गाजियाबाद, उ.प्र.—201002	10-04-2022	14,49,209	15-06-2022
4.	गाजियाबाद	राजकुमारी, कृष्णन कुमार	खसरा नं. 761, सहारा एन्कलेव, गाँव छपरौला, परगना और तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201009	10-04-2022	8,89,151	15-06-2022
5.	गाजियाबाद	रजनी राजकुमार सिंह, राज कुमार	पलैट—02, टॉवर—सी, निर्मल आश्रय प्लॉट नं. 19, खाता नं. 779, खसरा नं. 324, गाँव अछेजा, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा—201450	10-04-2022	9,26,264	15-06-2022
6.	गुडगाँव	विरेन्दर कुमार, वीना देवी, पूजा विरेन्दर	फ्लैट— तीसरा तल, प्लॉट नं. 20, पीछे की साइड छत अधिकार सहित, संपत्ति नं. आरजेड—20, गली नं. 5, खसरा नं. 290, वेस्ट सागरपुर कालोनी, गाँव नसीरपुर, नई दिल्ली—110046	10-04-2022	16,56,851	15-06-2022
7.	जयपुर	अमित कुमार शर्मा, पवन कुमार शर्मा	प्लॉट नं. 64 और 65, स्कीम बालाजी नगर प्रथम बस्सी में, गाँव बस्सी, तहसील बस्सी, आगरा रोड, जयपुर, जयपुर, राजस्थान–303301	10-04-2022	9,04,339	15-06-2022
8.	जयपुर	निर्मला कंवर, गोविंद सिंह, परमवीर सिंह, भवानी सिंह	प्लॉट नं. 65, स्कीम सुमन विहार—सी में, बिचपिड़ी रोड, गाँव नीमरा, जयपुर, राजस्थान—302012	10-04-2022	8,67,924	15-06-2022
9.	जयपुर	राम भरोसी, गीता पत्नी राम भरोसी, मनोज पुत्र राम भरोसी	प्लॉट नं. ए—126सी, सिद्धि विनायक विहार स्कीम में, रेलवे स्टेशन रोड, कनोटा, जयपुर राजस्थान—303012	10-04-2022	3,65,405	15-06-2022
10.	जयपुर	ब्रज मोहन, मुली देवी, दीपक बैरवा	पट्टा नं. 374, ग्राम लखसेरा, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान–303012	10-04-2022	9,37,398	15-06-2022
11.	जयपुर	पुष्पा खन्ना, मनोज कुमार वर्मा	प्लॉट नं. ए—27, सर्वोदय कालोनी, जमडोली, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान—303012	10-04-2022	10,03,336	15-06-2022
12.	जयपुर	मनीष कुमार वर्मा, मंजू देवी	प्लॉट नं. ए 31ए, स्कीमः विजय नगर एक्स. विजयपुरा आगरा रोड पर, (एन.एच.डब्ल्यू.नं. 11), जयपुर, राजस्थान—302003	10-04-2022	6,77,402	15-06-2022
13.	जयपुर	चंद्रपाल, राम लाली	प्लॉट नं. 790, गणेश नगर, निवारू रोड जयपुर,	10-04-2022	14,94,510	15-06-2022

तारीख को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों और सामान्य रूप में सर्व साधारण को संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों या इसके किसी भाग से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेनदेन संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के लिए यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि जो पूर्ण भुगतान तक आगे की ब्याज सहित भुगतेय है, के लिए **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेंड** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा—13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकुष्ट किया जाता है।

स्थानः एनसीआर और राजस्थान दिनांकः 21.06.2022

प्राधिकत अधिकारी. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

स्थान : दिल्ली

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली प्लॉट नंबर 20 और 21/1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो पिलर नंबर 98 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 दूरभाष-011- 45128661 ईमेल: ro1008@sib.co.in सीआईएन: L65191KL1929PLC001017

विनीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम

s(6) के सन्दर्भ में जारी सूचना मैसर्स श्री गंगादास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

. 7098 दुकान नं. 1, जैन मार्केट, गुरु नानक गली, गांधी नगर, दिल्ली– 110 031 इसके अलावाः एफ 224, फोकल प्वाइंट, फेज VIII, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब 141 010 इसके अलावाः भूतल एवं प्रथम तल प्रॉपर्टी नं. 465, सब्जी मंडी के पास, झील खरंजा, दिल्ली 110 051

 मैसर्स जीजी फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री नितिन डावर एफ 224, फोकल प्वाइंट, फेज VIII, चंडीगढ रोड लुधियाना, पंजाब 141 010 (कॉपोरेंट गारंटर) -. **श्री पंकज आहूजा**, 4181, 04 दुगार्पुरी हैबोवाल, कलां, लुघियाना, पंजाब 141 001 (निदेशक और

. **श्रीमती हेमा आहूजा,** 4181, 04 दुगार्पुरी हैबोवाल, कलां, लुधियाना, पंजाब 141 001 (व्यक्तिगत

 श्री राकेश कमार 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली 110 051 व्यक्तिगत गारंटर)

. **श्री सुरेश कुमार**, 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली 110 051 (व्यक्तिगत गारंटर) श्रीमान विनय डावर, मकान नंबर 267, ब्लॉक ए, राजगुरु नगर, लुधियाना, पंजाब 141 012 (निदेशक

व्यक्तिगत गारंटर और स्वर्गीय रमेश कुमार के कानूनी वारिस) . **श्री नितिन डावर**, मकान नंबर 267. ब्लॉक ए. राजगरु नगर, लिधयाना, पंजाब 141 012

(निजी जमानतदार और स्वर्गीय रमेश कमार के काननी वारिस) . **श्रीमती शिवानी कोचर**, 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली 110 051 इसके अलावाः मकान

i. 267, ब्लॉक ए, राजगुरु नगर, लुधियाना, पंजाब- 141 012 (स्वर्गीय रमेश कुमार के कानूनी वारिस) 10. **श्रीमती सविता डावर**, मकान नं. 267, ब्लॉक ए, राजगुरु नगर, लुधियाना, पंजाब- 141 012 इसके अलावाः मकान नं. 504, ब्लॉक जीएक्स, बीआरएस नगर एक्सटेंशन, वेरका मिल्क प्लांट के सामने,

फिरोजपुर रोड, लुधियाना, 141 012 इसके अलावाः 74/2, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर दिल्ली 110 051 (निदेशक और कानुनी उत्तराधिकारी स्वर्गीय रमेश कुमार) प्रिय श्रीमान/महोदया जैसा कि आप जानते हैं कि, बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने बैंक की शाखा वसुन्धरा को आपके द्वारा बकाय

देय के सन्दर्भ में कथित अधिनियम के सन्दर्भ में यहां संलग्न अनुसूची में वर्णित अचल आस्तियों का मद सं. 1 हेतु 04.05.2022 को, मद सं. 2 हेतु 05.05.2022 को तथा मद सं. 3 हेतु 26.05.2022 को सांकेतिक कब्जा कर लिया था। आपकी ओर मैसर्स श्री गंगादास टेक्सटाइल इंडस्टीज लिमिटेड के खाते में 09 06 2022 तक बैंक की बकाया देयता रु. 13.53.60.646.79 (रुपये तेरह करोड़ तिरेपन लाख साठ हजार छ सौ छियालीस एवं उन्यासी पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागतें हैं।

और जैसा कि, कर्जदार/सह-दायित्वधारी/जमानती अनुसूचित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जे के बावजूद बैंव की बकाया राशि अदा करने में असफल रहे अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात निविदा आमन्त्रण/सार्वजनिक नीलामी/निजी सन्धि द्वारा अचल सम्पत्ति की बिकी की जायेगी। नीलामी की तिथि एवं समय के विषय में सरफैसी अधिनियम में उल्लिखित के अनुसा अलग में बिकी मचना दाग मचित किया जायेगा और मामूनि उस व्यक्ति को बेची जायेगी जिसकी संविदा राशि उच्चतम होगी।

अतः कथित अधिनियम एवं उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के सन्दर्भ में, यह सचना सप्रा उल्लिखित बिक्री सुचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक को बकाया राशि अदा करने में समर्थ करने के लिए जारी की गयी है। वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास अनुसूचित सम्पत्ति के लिए कोई बेहतर प्रस्ताव है तो आप भी बिक्री हेतु निर्धारित तिथि तक या इससे पर्व इसके लिए क्रेता ला सकते हैं।

यह बिना किसी भावी सचना तथा/अथवा कथित अधिनियम या कोई अन्य लाग नियम के बिक्री की तिथि नेधीरित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार के पूर्वाग्रह के है।

अचल आस्तियों की अनुसूची **मद संख्या** : 1 - फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 200 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, संपत्ति नं. 74 का भाग. खसरा नंबर 4/39 में से. उस पर निर्मित आवासीय भवनों के साथ-साथ अन्य सभी निर्माणों. सधारों मौजुदा और अनुलग्न अधिकारों के साथ-साथ राम नगर एक्सटेंशन, ग्राम खरेजी खास, इलाका शाहदरा दिल्ली 110 051 में स्थित है। स्वर्गीय रमेश कमार (जब से उनके काननी वारिसों की मृत्य हो गई है और उनका श्रीमती सविता डावर, श्री विनय डावर, श्री नितिन डावर और श्रीमती शिवानी कोचर प्रतिनिधित्व किया गया है;) और श्री सुरेश कुमार (सम्बोधिती संख्या 6) (1)) सेल डीड नं. 560 दिनांक 19-02-1998 05-03-1998 को पंजीकृत, (2) बिक्री विलेख संख्या 561 दिनांक 05-03-1998 को पंजीकृत और (3) बिक्री विलेख संख्या 7255 दिनांक 07-06-2006 में अधिक विशेष रूप से वर्णित हैं. एसआरओ शक्तक दिल्ली में, सीमाएँ : उत्तर : संपत्ति संख्या 73 द्वारा, दक्षिण : सम्पत्ति नं. 75, पूर्व : 20 फीट चौड़ी सड़क और

मद संख्या : 2 - 100 वर्ग गज के क्षेत्रफल में से 50 वर्ग गज की फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का सस्त भाग, 218 वर्ग गज के कुल क्षेत्रफल में से। खसरा नं. 464/362 और उस पर निर्मित आवासीय भवनों के साथ-साथ नं. एमपीएल 783/18-ए/5 (पुराना), नया नंबर क7172, गौर नानक गली, गांधी नगर, ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली 110 031 में स्थित, अन्य सभी निर्माणों, सुधारों, मौजूदा और अनुलग्न अधिकारों के साथ स्वर्गीय रमेश कुमार के स्वामित्व में (मृत होने से उनके कानुनी उत्तराधिकारियों श्रीमती सविता डावर, श्री विनय डावर, श्री नितिन डावर और श्रीमती शिवानी कोचर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया), श्री राकेश कुमार (सम्बोधिती संख्या 5) और श्री सुरेश कुमार (सम्बोधिती संख्या 6) विशेष रूप से एसआरओ-क्र, नई दिल्ली/दिल्ली में बिक्री विलेख संख्या 1287 दिनांक 09-05-1989 के तहत वर्णित है और विल दिनांक 02-06-1997 को, सीमाएँ : उत्तर आम रास्ता, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पूर्व : कॉमन वॉल और दुकान नं. 7 और पश्चिम : कॉमन वॉल और दुकान नं. 5.

मद संख्या: 3- औद्योगिक भखंड माप 476 वर्ग गज पर लीजहोल्ड अधिकार सहित सम्पत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नं. F-224 तथा उस पर निर्मित भवन नं. नगर निगम नं. बी *-5349/एफ-224*, सभी निर्माणों सुधारों, मौजूदा और उससे जुड़े ईजमेंट अधिकारों के साथ-साथ फेज-श्क्क्क, फोकल प्वाइंट, लुधियाना, ग्राम नितिन डावर का स्वामित्व (सम्बोधिती संख्या 2) लीज डीड नंबर 12604 दिनांक 11-01-2012 में अधिक विशेष रूप से वर्णित, एसआरओ लुधियाना में पंजीकृत, सीमाएँ : उत्तर :ों मैसर्स प्रिंस फैब्रिक्स, दक्षिण : गली, पूर्व : एफ-225 और पश्चिम : खाली प्लॉट एफ-223।

तिथि : 20/06/2022 स्थान : दिल्ली

पश्चिम : अन्य संपत्ति।

अधिकत प्राधिकारी द साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड



जैन,

दि साउथ इंडियन बैंक सीआईएनः L65191KL1929PLC001017 क्षेत्रीय कार्यालयः दिल्ली, 3सरा तल, प्लॉट नंबर 20 और 21/1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, पूसा रोड, करोल बाग,

नई दिल्ली — 110005 दूरभाष-011- 45128661, ईमेल: ro1008@sib.co.in वेबसाइट : www.southindianbank.com त्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा

13(2) [इसके पश्चात प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में सन्दर्भित] के तहत सचना) **मैसर्स द माया पेपर्स**. इसके साझेदारों द्वारा प्रतिनिधानित. 11/4596/2. फकीर चंद जैन बिल्डिंग.

दरिया गंज, नई दिल्ली -110002.

पार्टनर, मेसर्स द माया पेपर्स, सी-150, सूर्य नगर, उत्तर प्रदेश-201011

3) श्री अभिनव जैन, पार्टनर, मेसर्स द माया पेपर्स, सी-150, सूर्य नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201011

श्रीमती शशि जैन, सी-150, सर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011

आप में से सम्बोधिती सं. 1 से 3 कर्जदार के रूप में और आप में से सम्बोधिती सं. 4 गारंटर के रूप में, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ''एसआईबी हाउस'', टी.बी. रोड, त्रिशर -केरल और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 21 और 21/1, करोल बाग मेटो स्टेशन के पास. पसा रोड. करोल बाग. नई दिल्ली - 110005 में और इसकी एक शाखा विवेक विहार, नई दिल्ली .डी-215, विवेक विहार, नई दिल्ली-110095 में से यहां नीचे उल्लिखित तिथि पर आवश्यक दस्तावेज क्रियान्वित करके निम्नलिखित सीमाएं ग्रहण कीं और नीचे अनुसूचित संपत्ति (आगे प्रतिभूत संपत्ति के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रतिभूत है।

सुविधा की प्रकृति	सीमा	दस्तावेज की तिथि अथवा	09.06.2022 तक शेष
		एओडी की तिथि	बकाया
CCOL	₹.	11.10.2019	₹. 1,17,92,655.56
[0505083000000008]	1,10,00,000.00	22.06.2020	
		25.03.2021	
सावधि ऋण–मशीनरी	₹.	04.10.2016	₹. 2,83,602.59
[0505652000000168]	9,90,000.00	22.06.2020	
ECLGS	₹.	22.06.2020	रु. 21,58,099.02
[0505656000000008]	21,00,000.00		

उपर्यक्त खाते हमारे खाते में 28.11.2021 को नॉन-पर्फांमिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिये गर हैं और हमने कथित सुचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज एवं लागतों सहित उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 10.06.2022 को सचना जारी की थी। किन्त आप सभी ने कथित सचना की अवहेलना की/सर्विस वापस कर दी. यह सार्वजनिक सचना प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार जारी है। अतः इस सचना द्वारा आपको अपनी देयताएं इस सचना के 60 दिनों के भीतर निस्तारित करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर हम बिना कोई आगामी सन्दर्भ दिये कथित अधिनियम की धारा

13(4) के तहत प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का उपयोग करके नीचे अनुसूचित प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होंगे। आप आगे ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आपको बिना हमारी पूर्व अनुमित के उपर्युक्त प्रतिभूतियों के निस्तारण या संव्यवहार अथवा उपर्युक्त किसी भी प्रतिभूत आस्ति को बिक्री पटटे या अन्यथा विधि (व्यवसाय के सामान्य कोर्स को छोडकर) द्वारा हस्तान्तरित करने से निषिद्ध/प्रतिबन्धित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कानून के अनुसार कर्जदार तथा जमानती/सह-दायित्वधारी के विरुद्ध दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों

या उपचारों के लिए पर्वाग्रह रहित किया गया है। प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

अनुसूची क

मद स. 1	(CCOLI 0505083000000008] ANI ECLGS[0505656000000008] ANI ANI	तमूत चल सम्पात्तया)
क्र.सं.	चल सम्पत्तियों का विवरण	प्रतिभूति हित
		सृजनकर्ता
1	फर्म की संपूर्ण वर्तमान संपत्ति (वर्तमान और भावी) का दृष्टिबंधक (सम्बोधिती	मैसर्स माया पेपर्स
	संख्या 1), सभी मूर्त चल संपत्तियां जैसे स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चे माल का स्टॉक,	[इसके साझेदारों
	प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल, पैकिंग सामग्री, और कर्जदार का माल, सभी वर्तमान	द्वारा प्रतिनिधानित]
	और भावी कार्रवाई योग्य दावे और अन्य चल संपत्ति जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती	
	है या अस्तित्व में आ सकती है, जिसमें पुस्तक ऋण शामिल हैं जो अभी या इसके	
	बाद समय-समय पर प्रतिभृति के दौरान उनके परिसरों या गोदामों में संग्रहीत या	
	लाए जाएंगे या एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर या	
	जहां कहीं भी हो, पारगमन के दौरान हो।	
मद सं. 2	(सावधि ऋण-मशीनरी [0505652000000168 तथा ECLGS[0505656000000008] खाते में प्र	तिभूत चल सम्पत्तियाँ)
1.	मेसर्स श्री विश्व कर्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित रिवाइंडर मशीन, शीटर मशीन	मैसर्स माया पेपर्स
	और कोर कटर मशीन का दृष्टिबंधक	[इसके साझेदारों
		

अनुसूची (खातों में सभी सुविधाओं के लिए प्रतिभूत अचल सम्पत्तियाँ के अधिकार के बिना 96.39 वर्ग मीटर की पुरी पहली मंजिल पर आवासीय फ्लैट नंबर सी-150 का समस्त भाग, सामान्य सविधाओं, सविधाओं, सखभोग अधिकारों और अन्य सभी अधिकारों का उपयोग करने के अधिकार के साथ-साथ 170.99 वर्ग मीटर के भूखंड में अनुलग्न गाजियाबाद जिले के सूर्य नगर में स्थित और श्री मनोज जैन वे स्वामित्व में, उपरंजिस्टार कार्यालय गाजियाबाद के गिफ्ट डीड नंबर 7232/2015 दिनांक

15.04.2015 में परी तरह से वर्णित है और इसकी सीमा है: उत्तर: प्लॉट नंबर सी-14 पूर्वः रोड दक्षिणः प्लॉट नंबर सी-151 पश्चिमः सर्विस लेन मुख्य प्रबंधव 17/06/2022

(अधिकृत प्राधिकारी द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड